



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या- 688
07/09/2019

मुख्यमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की

पटना 07 सितम्बर 2019 :- चंद्रयान-2 मिशन पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसरो के वैज्ञानिकों का प्रयास सराहनीय था और उनके अच्छे प्रयास के लिए हमें गर्व है। पूरा देश इसरो के वैज्ञानिकों के प्रयास की सराहना करता है और पूरा देश आपके साथ है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे वैज्ञानिक अपनी जोश और उर्जा को बरकरार रखते हुये पुनः पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ेंगे और हम अपने प्रयास में सफल होंगे। चंद्रयान-2 मिशन की एकत्र जानकारी भविष्य के वैज्ञानिक प्रयासों में मदद करेगी।
